



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 44 राँची, सोमवार,

21 जनवरी, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

9 जनवरी, 2019

**संख्या-1/पी०-103/2015 का.- 198** -- प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राजीव अरुण एक्का, भा.प्र.से. (झा:1994) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ श्रमायुक्त, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

**संख्या-1/पी०-103/2015 का.- 199** -- परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती शुभा वर्मा, भा.प्र.से. (झा:2001) (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या-1/पी०-103/2015 का.- 200** -- श्रमायुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती विप्रा भाल, भा.प्र.से. (झा:2006) (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती भाल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

**संख्या-1/पी०-103/2015 का.- 201** -- विशेष सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री इकबाल आलम अंसारी, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अंसारी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ नागरिक सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

**संख्या-1/पी०-103/2015 का.- 202** -- नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

**संख्या-1/पी०-103/2015 का.- 203** -- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार पाठक, भा.प्र.से. (झा:2006) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----